

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE (ORDINARY))

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
ART, CULTURE & LANGUAGE DEPARTMENT
7TH LEVEL 'C' WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI-110002

No.F.13 (5)/2012/ACL 7651-57

Dated: 28/12/2015

NOTIFICATION

F.No.13(5)/2012/ACL 7651-57 : In supersession of this Department's Notification No. F.13(5)/2012/ACL/1330-1335 dated 19.07.2013, the Hon'ble Chief Minister of Delhi (Chairman, Punjabi Academy), is pleased to reconstitute the Governing Body of Punjabi Academy, Govt. of NCT of Delhi as under:-

| | |
|---|-------------------|
| 1) Hon'ble Chief Minister, Delhi | Chairman |
| 2) Mr. Jamail Singh | Vice Chairman |
| 3) Principal Secretary (Finance), GNCTD | Ex-Officio Member |
| 4) Secretary (Language), GNCTD | Ex-Officio Member |
| 5) Dr. Kamaljit Singh | Member |
| 6) Mr. Amarjit Singh | Member |
| 7) Dr. (Mrs.) R. Kohli | Member |
| 8) Mr. Kuldeep Singh Channa | Member |
| 9) Mr. Jaswant Singh Arora | Member |
| 10) Mr. Inderjeet Singh | Member |
| 11) Mr. Baljit Singh Sahni | Member |
| 12) Mr. Manpreet Singh | Member |
| 13) Mr. Sarabjot Singh Grover | Member |
| 14) Mr. Devinder Sawhney | Member |
| 15) Ms. Kanchan Bhupal | Member |
| 16) Ms. Jai Bharti | Member |
| 17) Ms. Swati Sachdeva | Member |
| 18) Dr. Mamta Joshi | Member |
| 19) Secretary (Punjabi Academy) | Member Secretary |

The tenure of the Governing Body of Punjabi Academy except the Ex-Officio members shall be one year from the issue of this notification.


(B.S. Vashisht)

Deputy Secretary (Art, Culture & Language)

No.F.13 (5)/2012/ACL 7651-57
Copy to:-

Dated: 28/12/2015

1. The Pr. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
2. The Pr. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi.
3. The Secretary (Language), Govt. of N.C.T. of Delhi.
4. All Secretaries to Hon'ble Ministers, Govt. of N.C.T. of Delhi.
5. The Secretary, Punjabi Academy, Govt. of N.C.T. of Delhi.
6. All Members of the Governing Body of Punjabi Academy (through Secretary, Punjabi Academy).
7. Deputy Secretary (Coordination), GAD, Govt. of N.C.T. of Delhi for publication in the Delhi Gazette Part-IV (Ordinary). Please supply ten copies of the Notification to this department for official use.


(B.S. Vashisht)

Deputy Secretary (Art, Culture & Language)

(दिल्ली राजपत्र साधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
भाषा विभाग, सी-विंग, सांतवां तल,
दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं.13 (06)/2012-क0सं0 एवं भाषा/

दिनांक:

अधिसूचना

फा.सं.13 (05)/2012-क0सं0 एवं भाषा/7651-57- इस विभाग की दिनांक 19.07.2013 की अधिसूचना सं0 13(05)/2012-क0सं0 एवं भाषा/1330-1335 के अधिक्रमण में माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली (अध्यक्ष, पंजाबी अकादमी), पंजाबी अकादमी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करते हैं:-

| | | |
|-----|---|------------|
| 1 | माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली | अध्यक्ष |
| 2 | श्री जरनैल सिंह | उपाध्यक्ष |
| 3 | प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | पदेन सदस्य |
| 4 | सचिव, (भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | पदेन सदस्य |
| 5 | डा० कमलजीत सिंह | सदस्य |
| 6 | श्री अमरजीत सिंह | सदस्य |
| 7 | डा० (श्रीमती) आर. कोहली | सदस्य |
| 8. | श्री कुलदीप सिंह चन्ना | सदस्य |
| 9. | श्री जसवन्त सिंह अरोड़ा | सदस्य |
| 10. | श्री इन्द्रजीत सिंह | सदस्य |
| 11. | श्री बलजीत सिंह साहनी | सदस्य |
| 12. | श्री मनप्रीत सिंह | सदस्य |
| 13. | श्री सरबजोत सिंह घोवर | सदस्य |
| 14. | श्री देवेन्द्र साहनी | सदस्य |
| 15. | सुश्री कंचन भूपाल | सदस्य |
| 16. | सुश्री जय भारती | सदस्य |
| 17. | सुश्री स्वाति सचदेवा | सदस्य |
| 18 | डा० ममता जोशी | सदस्य |
| 19 | सचिव, पंजाबी अकादमी | सदस्य सचिव |

पदेन सदस्यों को छोड़कर पंजाबी अकादमी की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष का होगा।

व. क. शिष्ट
28/12/15
(बी. एस. वशिष्ठ)

उप सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं.13 (06)/2012-क0सं0 एवं भाषा/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
2. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
3. सचिव (भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
4. समस्त माननीय मंत्रियों के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
5. सचिव, पंजाबी अकादमी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
6. समस्त सदस्य गवर्निंग बॉडी, पंजाबी अकादमी (सचिव, पंजाबी अकादमी के माध्यम से) ।
7. उप सचिव, (सामान्य) सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-चार (साधारण) में प्रकाशनार्थ । कृपया अधिसूचना की दस प्रतियां इस विभाग को कार्यालय प्रयोग के लिये भिजवाने का कष्ट करें ।

व. क. शिष्ट
28/12/15

(बी. एस. वशिष्ठ)

उप सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)